

Star Trading House recognised by Govt. of India

Date: 30.05.2024

To, Bombay Stock Exchange Limited Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 532038

Sub: E- Copy of Newspaper Publications of Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year ended on 31st March, 2024

Ref.: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations")

Dear Sir/Madam,

In accordance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed copies of the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year ended 31st March, 2024, published in Business Standard newspaper (English and Hindi Edition) on 30th May, 2024.

You are requested to take the above on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

Emmsons International Limited

Priya Kesari

Company Secretary and Compliance Officer

ACS 22710



WINNER OF NATIONAL AWARD

PUBLIC NOTICE

DHANUKA AGRITECH LIMITED 82, Abhinash Mansion, First Floor, Josl Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Notice is hereby given that the Certificate(s for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost/misplaced and the holder(s)/purchaser(s) of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company wil proceed to issue duplicate certificate(S) to the aforesaid applicants without any furthe intimation

Name of the Shareholder: Ashok Singha Folio No: 0000932 No. Of Shares: 1000 Distinctive Nos.: 2068356 to 2069355 Certificate Nos: 932

Place: Delhi Date: 30-05-2024 HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LIMITED

CIN: L15200KA1998PLC023489
Regd Off: HCG Towers, # 8, P Kalinga Rao Road, Sampangi Ram Nagar, Bengaluru – 560027, Kamataka, India
Corporate off: Tower Block, Unity Building Complex, No.3, Mission Road, Bengaluru - 560027, Kamataka, India
Phone: +91 – 80 – 4660 7700, Email: investors@hcgoncology.com; Website: www.hcgoncology.com



NOTICE Members of the general public and existing shareholders of HealthCare Global Enterprises Limited ("the company") are hereby informoriginal Share Certificate, details of which are given hereunder, have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant

received from the concerned shareholders /claimants, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said of Certificate in their favour.							aid original Share
[Sr. No.	Name of the shareholder	Folio No.	Certificate No.(s)	Distinctive Nos. (From)	Distinctive Nos. (To)	No. of shares
[1.	Prakash Gangaram	HGL0000037	34	1947611	1949610	2,000

Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificate, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, to the company marked to Ms. Sunu Manuel, Company Secretary at the Registered Office or by e-mail marked to investors@hcgoncology.com within 15 days from the date of publication of this Notice. The public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificate.

Date: 29.05.2024

Company Secretary and Compliance Officer

VIDHI



BAJAJ FINANCE LIMITED FINSERV CORPORATE OFFICE: 3rd Floor, Panchshil Tech Park, Viman Nagar, Pune-411014, Maharashtra. Branch Office:

11th Floor Off No. 1152 Aggarwal Metro Heights, Plot No.e5, Netaji Subhash Palace Pitampura, New Delhi- 110034 Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to them by Bajaj Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets (N.P.A's). Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

oan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses		Demand Notice Date and Amount
AN No. 4010HL59999561 nd H401BHL0329866) SACHIN SHARMA (Borrower)	All That Piece And Parcel Of The Non-agricultural Property Described As: Entire Second Floor without Roof/Terrace rights part of free hold built up property bearing no.Wz-1020, Plot No. A-51,area admeasuring 158.3 sq yds(132.33 sq mtrs) situated in the area of village saleempur mazra, Madipur Delhi now colony known as rani bagh, Shakur Basti, Delhi -110034	Rs. 31,03,212/- (Rupees Thirty One Lac Three Thousand Two
in atom in halon taken for sub-lik tad and in af anti-	Fb b B	

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors) are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On which Bajaj Finance Limited has th

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED

Rea.Off.: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-600001 SHRIR (M Branch Office: Plot No. 245 & 246, 2nd Floor, Omkaram Tower, HOUSING FINANCE | Hanumnan Nagar – D, Amarpali Marg Vaishali Nagar, Jaipur Raiasthan - 302021 Website: www.shriramhousing.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the authorised officer of Shriram Housing Finance Limited (SHFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued a demand notice to the Borrower details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of SHFL has taken the SYMBOLIC Possession of the mortgaged property described herein below under Section 13(4) of the said Act and Rules. on this 24th and 27th-May-2024.

<u> </u>	
Borrower's Name and Address	Demand Notice
Loan no. SHLHJIPR0001382 MR.Rishab Gupta (Borrower) Mrs. Manju Gupta (Co-Borrower) Flat NoG-1, A-3, Apollo Hieghts SubhashNagar, Shastri Nagar, Jaipur Rajasthan -302016 Also at: Flat No. G-1204, 12th Floor, in G Tower, Ashadeep, Vedanta Murlipura, Sanganer, Jaipur, Rajasathan 302029 Mr. Ram Prakash Gupta(Co-Borrower)	Demand Notice 16-03-2024 Rs. 3773560/- (Thirty Seven Lakhs Seventy Three Thousand Five Hundred and Sixty Only) as on 07-Mar- 24 under reference of Loan Account No. SHLHJIPR0001382 with further interest as mentioned hitherto
Flat NoG-1, A-3, Apollo Hieghts SubhashNagar, Shastri Nagar, Jaipur Rajasthan -302016	as mentioned nitherto and incidental expenses, costs etc.
Flat No. G-1204, 12th Floor, in G Tower, Ashadeep, Vedanta Murlipura, Sanganer, Jaipur, Rajasathan 302029 Symbolic Possession date-27-05-2024	3.42.1335 3300 300

Description of Mortgaged Property

Flat No. G-1204, Situated on Twelfth of group housing, Plot of Khasra No. 19, 19/430, 20/1, 21/375 &74, and group HousingPlot No. R-1 OF Khasara No. 18, 75,76 & 77, Murlipura, Sanganer, Jaipur , Ashadeep, Vedanta, Rajasathan Admeasuring Area 1535 Sq. Fit.

Borrower's Name and Address	Demand Notice
Loan A/c No:- SHLHKOTA0000228 1.MR.Mohammad Aslam, Address: - House No85, Adharshila Kachi Basti, Dadabadi, Kota-Rajasthan_324009.	Rs. 1949151/- (Nineteen Lakhs Forty Nine Thousand One Hundred and Fifty One
Also at: Address:- Plot No6-C-47, Vigyan Nagar Vistar Yojna, Kota-Rajasthan_324009	Only) I as on 07-Mar-24 under reference of Loan Account No.
2. Mrs. Sahana w/o Aslam, Address:- House No85, Adharshila Kachi Basti, Dadabadi, Kota-Rajasthan_324009. Symbolic Possession date-24-05-2024 NPA- 04-03-2024	SHLHKOTA0000228 with further interest as mentioned hitherto and incidental expenses, costs etc.
Description of Montecond Descri	

Description of Mortgaged Property

All that the Piece and Parcel of Property Plot No.-C-204/2, Lajpat Nagar-1, Gram-Ramchandrapura, Teh-Ladpura, Kota-Rajasthan, 324002 C-205, West: Road, North: Remaning Part Of Plot No.-204, South: Other Plot

This notice is also hereby to caution the general public at large that SHFL is in the lawful Symbolic possession of the immovable property mentioned above and the Borrower or any person shall not after receipt of this notice transfer by way of sale. lease or otherwise deal with/ alienate any of the above mentioned secured asset referred to in this notice, without prior written consent of SHFL.

Place: JAIPUR / Kota Sd/- Authorised Officer Shriram Housing Finance Limited Date: 25-05-2024

GEMSTONE INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65990MH1994PLC081749

Reg. Off.: Office No. A/301, Shubham Centre A Building CHS, Cardinal Gracious Road,

Andheri East Mumbai 400093.

Contact No: 7208992060; Email: gemstoneltd@gmail.com; Website: www.gemstoneltd.com

Extracts of the statement of Audited Financial Results for the Financial Year ended on 31st March 2024

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange unde

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full forma

of Audited Financial Result for the quarter ended is available on the website of the Stock Exchange i.

igures for the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified wherever considered necessar-

31.03.2024

(Audited)

57.817

(72.751)

(72.751)

(63,630)

747.500

(0.085)

(0.085)


VIDHI SPECIALTY FOOD INGREDIENTS LIMITED

[CIN: L24110MH1994PLC076156]

Registered Office: E/27, Commerce Center 78, Tardeo Road, Mumbai-400034 Phone No.: 022-6140 6666; Fax No.: 022-23521980

Website: www.vidhifoodcolors.com; Email id: mitesh.manek@vidhifoodcolors.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and financial year ended March 31, 2024



Note

- The consolidated results for the quarter and year ended 31st March 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in it's meeting held on 29th May 2024. The above results for the year ended 31st March 2024 have been audited by statutory auditors of the Company in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Company operates in single business segment namely manufacturing and trading of food colors and chemicals. Hence, no separate disclosure as per "Ind AS-108" is required for the Operating segment.
- The Board of Directors at its meeting held on 29th May, 2024, has recommended Final Dividend of Rs. 1/- per equity share of Re. 1/- each fully paid up, (i.e.100%), for the Financial Year 2023-24 aggregating to Rs. 499.4 Lakhs.
- The figures of the quarters ended 31st March 2024 and 31st March 2023 are balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended on 31st March 2024 and 31st March 2023 (Ind AS) respectively and the published year to date Ind AS figures upto third guarters ended on 31st December 2023 and 31st December 2022 respectively, which were subjected to a
- Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to make them comparable with the current period / year. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges u/r 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the results for the quarter and year ended March 31, 2024 are available on the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company at www.vidhifoodcolors.com For Vidhi Specialty Food Ingredients Limited

Place : Mumba Date: May 29, 2024

Bipin M. Manek Chairman & Managing Director DIN: 00416441

EMMSONS

Date: 30.05. 2024 Place:- DELHI/NCR

EMMSONS INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC053060

Regd Office: Flat No. 301, Plot No. 12, Zamrudpur, Community Centre, Kailash Colony, New Delhi - 110048. **Tel:** 91-11-29247721-25, **Fax:** 91-11-29247730 Website: www.emmsons.com, E-mail: corporate@emmsons.com

Authorized Officer Bajaj Finance Limited

(Amount in Rs. Lacs except EPS)

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2024

	(value and in the last except in e)							
S.			Quarter Ended			nded		
No.	PARTICULARS	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
1	Total Income from operations	0.26	3.59	1.49	3.84	1.49		
2	Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and tax)	(4,768.31)	(4,797.19)	(4,428.66)	(19,112.22)	(17,602.85)		
3	Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(4,768.31)	(4,797.19)	(4,428.66)	(19,112.22)	(17,602.85)		
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional Items)	(4,768.31)	(4,797.19)	(4,428.66)	(19,112.22)	(17,602.85)		
5	Total comprehensive income	(4,764.51)	(4,796.67)	(4,431.56)	(19,107.21)	(17,599.15)		
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60		
	Reserve excluding revaluation reserves	-	-	-	(2,35,225.64)	(2,16,118.43)		
7	Earning per share of Rs. 10/- each (1) Basic (Rs.) (2) Diluted (Rs.)	(39.75) (39.75)	(39.99) (39.99)	(36.92) (36.92)	(159.32) (159.32)	(146.74) (146.74)		

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Amount in Rs. Lacs except EPS)							
		Quarter Ended	Year Ended				
PARTICULARS	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
Total Income from operations	0.26	3.59	1.49	3.84	1.49		
Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and tax)	(4,768.31)	(4,797.19)	(7,648.41)	(19,112.22)	(20,822.59)		
Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(4,768.31)	(4,797.19)	(7,648.41)	(19,112.22)	(20,822.59)		
Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional Items)	(4,768.31)	(4,797.19)	(7,648.41)	(19,112.22)	(20,822.59)		
Total comprehensive income	(4,764.51)	(4,796.67)	(7,651.30)	(19,107.21)	(20,818.90)		
Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60		
Reserve excluding revaluation reserves	-	-	-	(2,61,506.87)	(2,42,399.66)		
Earning per share of Rs. 10/- each (1) Basic (Rs.) (2) Diluted (Rs.)	(39.75) (39.75)	(39.99) (39.99)	(63.76) (63.76)	(159.32) (159.32)	(173.58) (173.58)		
	Total Income from operations Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and tax) Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items) Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional Items) Total comprehensive income Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) Reserve excluding revaluation reserves Earning per share of Rs. 10/- each (1) Basic (Rs.)	(Audited) Total Income from operations 0.26 Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and tax) Profit/(Loss) for the period before tax (4,768.31) (after exceptional items) Net Profit/ Loss for the period after tax (4,768.31) (after exceptional items) Total comprehensive income (4,764.51) Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) 1,199.60 Reserve excluding revaluation reserves - Earning per share of Rs. 10/- each (1) Basic (Rs.) (39.75)	PARTICULARS 31.03.2024 31.12.2023 (Audited) (Unaudited) Total Income from operations 0.26 3.59 Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and tax) (4,797.19) Profit/(Loss) for the period before tax (4,768.31) (4,797.19) (after exceptional items) (4,768.31) (4,797.19) (after exceptional Items) (4,768.31) (4,797.19) (after exceptional Items) (4,764.51) (4,796.67) Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each) 1,199.60 1,199.60 Reserve excluding revaluation reserves - - Earning per share of Rs. 10/- each (1) Basic (Rs.) (39.75) (39.99)	PARTICULARS 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 (Audited) (Unaudited) (Audited)	PARTICULARS 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited		

NOTES

- The above Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 29, 2024. The Independent Auditor's Report of the Statutory Auditors is being filed with the Stock Exchange.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31* March, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full forma of these Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) by the order of the Board

for EMMSONS INTERNATIONAL LIMITED Sd/-

Place of meeting : New Delhi Date: 29th May, 2024

Anil Kumar Monga (Chairman and Managing Director)

NDA SECURITIES LTD.

CIN: L74899DL1992C050366 Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019

Phone: 91-46204000. Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

Statement of Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 (Amount Rs. in Lacs)

(Amount As. in Lac							t RS. III Lacs		
	Standalone				Consolidated				
Particulars	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
	Aud	ited	Aud	Audited		Audited		Audited	
Total Income	198.65	115.96	655.21	573.22	199.51	116.18	656.73	574.01	
Net Profit Before Tax	32.98	-3.27	94.21	25.35	32.50	-4.10	91.80	22.35	
Net Profit After Tax	20.52	63.60	65.84	82.03	19.56	62.68	63.08	78.98	
Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	4.77	1.38	4.33	-9.58	4.77	1.38	4.33	-9.58	
Total Comprehensive income	25.29	64.98	70.17	72.45	24.33	64.06	67.41	69.40	
Paid up Equity Share Capital (FV 10/-)	594.84	509.22	594.84	509.22	594.84	509.22	594.84	509.22	
Other Equity			526.31	391.76			491.09	359.30	
Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted)	0.34	1.25	1.11	1.61	0.33	1.23	1.06	1.55	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock exchange website. (www.bseindia.com) and Company's Website (www.ndaindia.com) For and on behalf of the Board of Directors

for NDA Securities Limited

Sanjay Agarwal Place : New Delhi Managing Director Date: 29.05.2024 DIN: 00010639

AVANCE TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L51900MH1985PLC035210 Regd. Off.: Office No. 226/227, Majestic Center, Second Floor, 144 Opera House, Mumbai, Maharashtra, 400004

Phone: 919594988351 Email: info@avance.in, avancetechnologiesltd@gmail.com; Web: www.avance.in Extracts of the Statement of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended

31st March 2024 (Rs. in L					akhs except for the Earning Per Share)			
n		Standalone			Consolidated			
Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31 .03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)		
Total income from operations	4959.194	7182.162	58.472	10828.177	14682.294	58.472		
Net Profit/(Loss) for the period								
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	121.803	222.744	2.931	224.413	503.205	2.931		
Net Profit/(Loss) for the period before tax								
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	121.803	222.744	2.931	224.413	503.205	2.931		
Net Profit / (Loss) for the period after tax	106.803	207.744	(6.742)	209.413	488.205	(6.741)		
Equity Share Capital	19819.174	19819.174	19819.174	19819.174	19819.174	19819.174		
Earnings Per Share (of Re. 1/- each)								
(for continuing and discontinued operations)-								
Basic:	0.027	0.0105	(0.003)	0.106	0.246	(0.003)		
Diluted:	0.027	0.0105	(0.003)	0,106	0.246	(0.003)		

The above result is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and inancial year ended 31st March 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on website of Stock Exchange and on Company's website.

figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified wherever considered necessary.

For Avance Technologies Limited Srikrishna Bhamidipati Managing Director

almondz

Almondz Global Securities Limited

CIN: L74899DL1994PLC059839 Regd. Off.: F-33/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020 Tel:.: 011-43500700, Fax.: 011-43500735 Website: www.almondzglobal.com, E-mail ID: secretarial@almondz.com Extract of Consolidated Audited Financial Results

for the Quarter / Year ended 31 March 2024

for the Quarter / Year ended 31 March 2024 Rupees in Lakh							
	-	Quarter Ende	d	Year I	Ended		
Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023		
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited		
Total income from operations	4,541	3,013	2,663	11,629	7,601		
Net profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraodinary items)	333	312	184	1,207	575		
Net profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraodinary items)	333	1,887	184	2,782	575		
Net profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraodinary items, minority interest and share of profit/(loss) in associate companies)	600	1,984	403	3,408	1,578		
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comrehensive income (after tax))	597	2,013	394	3,448	1,579		
Equity Share Capital	1,609	1,609	1,553	1,609	1,553		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance sheet)				20,389	19,454		
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 6 /- each)							
(a) Basic	2.19	7.24	1.56	12.43	6.10		
(b) Diluted	2.15	7.12	1.48	12.23	5.80		
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 6 /- each)							
(a) Basic	2.19	7.24	1.56	12.43	6.10		
(b) Diluted	2.15	7.12	1.48	12.23	5.80		

Key number of Standalone Financial Results						
		Quarter Ende	Year Ended			
Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
Net Income from Operations	1,347	826	911	3,436	2,651	
Profit from ordinary activities before tax	211	135	80	592	402	
Profit after tax and exceptional income	170	1,716	47	2,113	323	
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comrehensive income (after tax))	141	1,737	36	2,112	328	

- The Financial Results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter / Year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the the Quarter / Year ended 31st March 2024 are available on the web site of the company i.e. www.almondzglobal.com and stock exchanges website, i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com
- The consolidated audited financial results for the the quarter / Year ended 31st March 2024 include figures pertaining to two associates; M/s Premier Alcobev Private Limited & M/s Almondz Insolvency Resoluti

For and on behalf of the Board of Almondz Global Securities Limited Navjeet Singh Sobt

Managing Director DIN: 00008393

Date: 29/05/2024



www.bseindia.com).



Particulars

Total income from operations (net)

(before tax and exceptional items)

Net Profit/(Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax Paid-up Equity Share Capital (Share of Re. 1/- each)

Net Profit (Loss) for the period

(after exceptional items)

Earning per equity share

Basic

Diluted



(Amount in 'Lakhs' except EPS

31.03.2023

(Audited)

35.279

(34.429)

(34,429)

(37.968)

747.500

(0.051)

(0.051)

Standalone

31.03.2024

(Audited)

210.523

48,518

48,518

35.168

747,500

0.047

0.047



By Order of the Board For Gemstone Investments Limited



Place: Mumbai.

Date: 28/05/2024













DIN: 02083384



Place: New Delhi

Date: 29th May 2024







कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 01 (एएलडी) का 2024 कम्पनी अधिनियम 2013 (18 ऑफ 2013) के मामले में, धारा 230 एवं 232 तथा व्यवस्था की योजना के मामले में

निम्नलिखित के मामले में

अंबा पैनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता स. 1 / अलग की गई कम्पनी (यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय खसरा नं. 315, गाँव उपेड़ा, हापुड़—245101, उत्तर प्रदेश में स्थित है।) तथा

अंबा लैमीनेट प्राइवेट लिमिटेड

याचिकाकर्ता स. 2/परिणामी कम्पनी (यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका

| यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यात्वय खसरा नं. 402, गाँव ततारपुर, हापुड-245101, उत्तर प्रदेश में स्थित है।)
साबिका की सुनवाई की सुचन।
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 को धाराओं 230 और 232 के तहत एक संयुक्त याविका कम्पनी अधिनियम 2013 को धाराओं 230 और 232 के तहत एक संयुक्त याविका कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 52 और 66 के साथ पठित, कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के व्यवस्था की योजना के मामले में 6 माई, 2024 को नामित याविकाकर्ता द्वारा अंबा पैनल हिस्से उन्नर अधिक क्षेत्र के साथ प्रहित प्रावधानों होता अधिक क्षेत्र के साथ किया प्रावधानों के साथ साथ के साथ साथ के साथ साथ के साथ के साथ साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ क

हैं। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपनी आशय की सूचना, अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताश्वरित, अपने नाम तथा पते के साथ माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच, 6/7, पन्ना लाल रोड, प्रयागराज-211 002, उत्तर प्रदेश अथवा याचिकाकर्ता अधिवक्ता को सूचित करे, ताकि यह नोटिस बेंच अथवा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास, सुनावई हेतू निर्धारित तिथि के कम से कम 2 दिन से पहले पहुंचे। यदि कोई याचिका के प्रतिवाद हेतू इच्छुक है तो विरोध के आधारो अथवा शपअपत्र की एक प्रति इस नोटिस के साथ प्रस्तुत करे। याचिका की एक प्रति किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित शुक्क पर/जिसक भुगतान करने पर इसकी आवश्यकता होती है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत शुल्क पर/1 की जाऐगी।

> कार्तिकेय गोयल, अधिवक्त कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स

दिनांकः 29.05.2024 785, पॉकेट—ई, मयूर विहार—। दिल्ली मेरठ एक्स्प्रेसवे / एनएच—9, दिल्ली 110 09 मोबइलः 9312409354, ई-मेलः rajeev391@gmail.com, वेबसाइटः www.rgalegal.ir

WORLDWIDE ALUMINIUM LIMITED

Reg. Office: 602, Rohit House, 3 Tolstoy Marg. Connaught Place, New Delhi-110001 Email Id: legalteam.worldwide@gmail.com, Ph. No. : +91-11-49446667/49446668 CIN: L70109DL1990PLC338798. Website: www.wwal.in

> EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST MARCH, 2024

(In Lakhs except for EPS)							
Particulars	Quarter Ended 31st March 2024 Audited	Quarter Ended 31st December 20223 Unaudited	Quarter Ended 31st March 2023 Audited	Year Ended 31st March 2024 Audited	Year Ended 31st March 2023 Audited		
Total Income (From operations & Other Income)	701.76	-	13.39	701.76	2350.92		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	38.13	(8.16)	(5.52)	0.53	0.16		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional/ extraordinary items)	38.13	(8.16)	(5.52)	0.53	0.16		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (After Exceptional/ extraordinary items)	37.85	(8.16)	(5.77)	0.25	(0.09)		
Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	37.85	(8.16)	(5.77)	0.25	(0.09)		
Equity Share Capital	328.63	328.63	328.63	328.63	328.63		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year	287.18	249.47	286.92	287.18	287.00		
Earnings Per Share of Rs. 10/- each Basic & Diluted	1.15	(0.25)	(0.18)	0.01	(0.00)		

Notes

Place: New Delhi

- 1. The above is an extract of the detailed format Quarter Ended 31.03.24 audited Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarter-ender Financial Results are available on the website of the Stock Exchange, i.e., www.bseindia.com and the website of the Company, i.e., www.wwal.in.
- 2. The above financial results are in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed u/s 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 3 of the Companie (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended from time to time

For Worldwide Aluminium Limite Sd/-Abhishek Jair (Joint Managing Director) DIN: 02801441



घामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संभल, मुरादाबाद, यु.पी-244304 CIN: L15100UP2020PLC136939, फोन: +91-7302318313, ई-मेत्तः investors@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com,

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से चौथी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 और भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपन्न सं. सेबी/एचओ 25 सितम्बर, 2023 अर निराधन असमूर्य का विचान कर्म है (एस) एसे एसे हैं निर्माक 7 अक्टूबर, 2023 र सीएफडी 'सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार आम स्थल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना **घामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की चौधी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 5**

जुलाई, 2024 को अप. 4300 बजे (आईएसटी) में विडियो कॉन्फेंसिंग ("वीसी")/अन्त ऑडियो विडियो माध्यमाँ ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। चौथी एजीएम के लिए अनुमानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्घारित कामकाज के निष्पादन के लिए आयोजि एजीएम हेतु वीसी/ओएवीएम सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड "एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थिति की गणना एजीएम के कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु मान्य होगी।

उपरोक्त वर्णित परिपन्नों के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम व आयोजन की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (''आरटीए'') और डिपॉजिटरी प्रतिमागी(यों) (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं गर्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए एवं सेबी के उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के माध्यम से हटा दी गई है। तथापि. वार्षिक रिपोर्ट के साथ चौथी एजीएम के आयोजन की सूचना की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो nvestors@dhampur.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे। एजीएम की सूचना और वार्षिक mvesioisigionampin.com पर इसके लिए अनुसाब करना रूपालें के भी सूचना आर पानिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com, स्टॉक एक्सवेंजों की वेबसाइटों याने बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्वेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ww.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगी।

ई-मेल पता पंजीकरण करने की प्रक्रिया

डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने डिपॉजिटरी प्रतिमानी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है को ई—मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट मेजने के सीमित प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यगण अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक लामार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व–सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व—सत्यापित प्रति) को कंपनी के पास investors@dhampur.com पर/आरटीए के ई—मेल ta@alankit.com पर भेजकर अपना ई—मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकत करा सकते हैं या लिंक https://mailupd.alankit.com को देखें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ई–मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत कराएं।

वोट देने की प्रक्रियाः

दिनांकः 29 मई, 2024 स्थान : नई दिल्ली

सदस्यों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर अपना वोट रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से देने की सुविधा होगी। रिमोट ई-बोटिंग से वोट नहीं देने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि

कंपनी ने अंतिम लागांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की योग्यता के निर्घारण के लिए शुक्रवार, 28 जून, 2024 रिकार्ड तिथि के रूप में निर्घारित की है। निर्देशक मंडल ने 24 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एजीएम में शेयरघारकों के अनुमोदन के अघीन अंकित मूल्य रु. 10/— प्रत्येक के रु. 2.50/— प्रति इक्विटी शेयर लामांश की अनुशंसा की हैं। लामांश, यदि अनुमोदित हो जाता है तो उन सदस्यों को इसकी घोषणा की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर इलेक्टॉनिक भाष्यम से मुगतान किया जाएगा जिन सदस्यों के अपडेट किए गए बैंक खाता विवरण उपलब्ध है और जिन सदस्यों के बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं हैं, उन्हें उनके पंजीकृत पते डिमांड ड्राफ्ट मेजे जाएंगे। लामांश प्राप्त करने में किसी मी देरी से बचने के लिए सदस्यो से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट कराएं। सदस्यगण अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पता, बैंक खाता विवरण, ई—मेल पता, नामांकन आदि में परिवर्तन/अपडेट करने के लिए अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

यह सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाग के लिए जारी की जा रही हैं।

कृते घामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

हस्ता./-

FINSERV कार्यालय : तृतीय तल, पंचशील टेक पार्क, विमान नगर, पुणे- 411014, महाराष्ट्र शाखा कार्यार सं. 1152, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट नंबर ई 5, नेताजी सुभाष पेलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 ाराष्ट्र **शाखा कार्यालय** : 11वां तल कार्यालर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की बाज 13 (2) के तहत माने सहमना अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एत्त्वहाज निमालिकित सुधना उन कर्जवार(गें)/सह-कर्जदार(गें) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उनको सम्पत्ति के संबंध में दिए गए गृह ऋष (ऋषों)/ऋष (ऋषों) के मूलधन और उसपर जदबूत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणानस्वरूप ऋष निम्नवर्णित तिथियों को अनार्जक आसित (एनपी.ए'ज) हो गया है /हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आसियों का प्रतिभृतिकरण और नुमर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सुवनाएं उनके अतिम ज्ञात परे पर, जारी को गई थी। तबायों ये बिना सुपूर्विभी दीना तामीन जायस प्रार्थ हो बुकी हैं अस कर्जवर्गरों/) सह—कर्जवर(राँ) को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया रशियों का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या / कर्जदार(रॉ) /	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत/बंधक	मांग सूचना तिथि
सह—कर्जदार(रो) / गारंटर(रों) का नाम एवं पता	अचल आस्ति/सम्पत्ति का पता	और राशि
शाखा : दिल्ली	निम्नवर्णित गैर-कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम सलीमपुर माजरा,	18-05-2024
(एलएएन : 4010HL59999561 एवं H401BHL0329866)	मादीपुर, दिल्ली, कालोनी अब रानी बाग के नाम से मशहूर, शकूरबस्ती,	₹5. 31,03,212/-
1. सचिन शर्मा (कर्जदार)	दिल्ली—110034 में स्थित 158.3 वर्ग गज (132.33 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल परिमाप	
2 हरमीत शर्मा (सह–कर्जदार)	के प्लॉट नंबर ए-51 पर निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड-1020 का	तीन हजार दो सौ
दोनों निवासी : डब्ल्यूजैड—1020, तृतीय तल, रानी बाग, निकट	सम्पूर्ण द्वितीय तल, छत / टेरेस के अधिकार नहीं।	बारह मात्र)
गुरूद्वारा वाली गली, सरस्वती विहार, दिल्ली—110034		l

यह कदम सूचना की वैकलिक तामील हेतु उठाया जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह-कर्जदारों गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का बुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें. जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभृति आस्ति/बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे कार्यवाही (बजाज फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकृत प्रमावित किए बगैर) की जाएगी। उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सुजित नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। जिन पर बजाज फाइनैं

तिथि : 30-05-2024, स्थान :- दिल्ली / एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनैंस लिमिटेर

	सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना							
अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों)	एन.पी.ए की	बकाया राशि				
द्ध.	(9)	का विवरण (बी)	तारीख (सी)	(জ.) (জ)				
1.	कर्ज खाता क्र. HHLHDE00356227 1. चंदन सिंह 2. गीता फत्यांल उर्फ गीता देवी	भूमि बेअरिंग खसरा नंबर 33 केए, खाता नंबर 1566 (1417 से 1422 फसली), मौजा मेहुवाला माफी, परगना पछवादून, देहरादून – 248001, उत्तराखंड	09.04.2024	रु. 4,72,760.43/- (रुपए चार लाख बहत्तर हजार सात सौ साठ और तैंतालीस पैसे मात्र) 15.05.2024 के अनुसार				
2.	कर्ज खाता क्र. HHLHDE00233443 1. चंदन सिंह 2. गीता देवी उर्फ गीता फर्त्याल 3. सरोज ज्यारा (गारंटर)	भूमि खसरा नंबर 33 केए, मौजा मेहुवाला माफी में स्थित है, परगना पछवा दून, जिला देहरादून – 248001 उत्तराखंड	09.04.2024	रु. 17,70,415.33/- (रुपए सत्रह लाख सत्तर हजार चार सौ पन्द्रह और तैंतीस पैसे मात्र) 06.05.2024 के अनुसार				

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता' सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी स्ररक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेन्स लि स्थान : देहरादुन

almondz

अलमोंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

CIN: L74899DL1994PLC059839 पंजीकृत कार्यालयः एफ-33/3, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन: 011-43500700, फैक्स: 011-43500735 वेबसाइट: www.almondzglobal.com, ई-मेल आईडी: secretarial@almondz.com

क्तपये लाख							
	समाप्त तिमार्ह	ì	समाप्त वर्ष				
विवरण	मार्च	दिसम्बर	मार्च	मार्च	मार्च		
Iddfal	31, 2024	31, 2023	31, 2023	31, 2024	31, 2023		
	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित		
प्रचालनों से कुल आय	4,541	3,013	2,663	11,629	7,601		
अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और असाधारण मदों से पहले)	333	312	184	1,207	575		
कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और असाधारण मदों के बाद)	333	1,887	184	2,782	575		
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद, अल्पसंख्यक ब्याज और सहयोगी कंपनियों में लाम/(हानि) का हिरसा)	600	1,984	403	3,408	1,578		
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय शामिल))	597	2,013	394	3,448	1,579		
इक्विटी शेयर पूंजी	1,609	1,609	1,553	1,609	1,553		
रिजव्र्स (बैलेंस शीट में दिखाए गए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				20,389	19,454		
प्रति शेयर आय (असाघारण मदों से पहले) (प्रत्येक रू 6/—)							
(ए) बेसिक	2.19	7.24	1.56	12.43	6.10		
(बी) डायल्यूटिड	2.15	7.12	1.48	12.23	5.80		
प्रति शेयर आय (असाघारण मदों के बाद) (प्रत्येक रू 6/—)							
(ए) बेसिक	2.19	7.24	1.56	12.43	6.10		
(बी) डायल्यूटिड	2.15	7.12	1.48	12.23	5.80		
स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या	स्टँडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या						

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या								
	,	समाप्त तिमाई	समाप्त वर्ष					
विवरण	मार्च	दिसम्बर	मार्च	मार्च	मार्च			
	31, 2024	31, 2023	31, 2023	31, 2024	31, 2023			
	अंकेद्दित	अनंकेदित	अंकेद्दित	अंकेक्षित	अंकेद्दित			
प्रचालनों से कुल आय	1,347	826	911	3,436	2,651			
कर से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ	211	135	80	592	402			
कर के बाद सामान्य गतिविधियों से लाभ	170	1,716	47	2,113	323			
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय								
शामिल))	141	1,737	36	2,112	328			

- कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत वितीय परिणाम को निर्धारित इंड एएस के अनुसार तैयार किये गए हैं।
- सेबी (सूचीयन बाघ्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई, उपरोक्त 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट यानि <u>www.almondzglobal.com</u> और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानि <u>www.bseindia.com</u> और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
- 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों में दो सहयोगियों से संबंधित आंकडे गामिल हैं. मैसर्स प्रीमियर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अलमॉड्ज इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से अलमोंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड हस्ता/-नवजीत सिंह सोबती

प्रबंध निदेशव

DIN: 00008393

स्थानः नई दिल्ली

ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: 152, Shivani Apartments, Plot No.63, I.P. Extension, Patparganj, East Delhi, Delhi-110092 CIN: L16000DL1987PLC396234, Phone: 9871761020

Audited Financial Results of Elitecon International Limited for the quarter and year ended March 31, 2024 prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (IND-AS) STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

	Quarter Ended	Quarter Ended	Year ended
Particulars Particulars	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2023
	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations (net)	4,432.04	718.15	5,833.21
Net Profit / (Loss) for the period			
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	623.62	(5,675.25)	(7,821.22)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax,			
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	623.62	(5,675.25)	7,821.22)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax,			
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	630.21	(5,660.47)	(7,818.11)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for			
the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	632.86	(5,660.47)	(7,818.11)
Equity Share Capital	121.00	121.00	121.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(7,541.23)	276.88	276.88
Earnings Per equity Share(of Rs.10/each)			
(for continuing and discontinuing operations)			
(a)Basic:	52.08	(467.81)	(646.12)
(b)Diluted:	52.08	(467.81)	(646.12)

Above results were reviewed by Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on Tuesday, May 28, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out a review of the result for the quarter and year ended March 31, 2024.

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Ended Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website www.eliteco The above results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 ('Ind AS') prescribed under
- Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 as amended

PUBLIC NOTICE

that, I Mr. Puneet Agarwal S/o Surendra

Agarwal, R/o Hanuman Industries

Rudrapur Road, Kichha, Udham Singh

Nagar, Uttarakhand-263148 have lost the

Original Provisional Allotment Letter

Original Payment Receipts issued by

Jaiprakash Associates Limited in respect of

Unit bearing no. BS007D0603 in Buddha

Circuit Studios project, situated at Jaypee

Greens, Noida on dated 17-10-2023. Any

one finding the said documents is

requested to kindly return the same to me or

Informed to the General Publi

The Company has moved an application for the Voluntary delisting of its Securities from CSE on January 16, 2024

Date: May 29, 2024

Notice Under Rule 2 Of Second

Schedule To The Income Tax Act 1961

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL IAIPUR

DEMAND NOTICE

HEMANT SINGH BHATI ... Certificate Debto

(1) Hemant Singh Bhati, S/o Late Shri Nathi

Singh, R/o 573, Pragati Nagar, Near Jai Narayan Vyas House, Kotra, Ajmer,

(2) Smt. Aakansha Bhardwaj , W/o Shri

Near Jai Narayan Vyas House, Kotra, Ajr

(3) Ashok Meena S/o Shri Badri Naraya

R/o C-679, Panchsheel, Ajmer (Raj.)
In view of the Recovery Certificate issued i

O.A. No. 1173/2019 passed by the Presiding

officer, DRT, Jaipur for an amount of Rs T1,52,534.97/- (In words Rs. Seventeen Lacs Fifty Two Thousand Five Hundred Thirty Four and Paisa Ninety Seven Only) and

nterest thereon as per Recovery Certificate is

 You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 Days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be

appear before undersigned on 03.07.2024 at 11:00 AM. 3. In addition to the sum

aforesaid, you will also be liable to pay:(a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings. (b) All costs,

charges and expenses incurred in respect of

the service of this notice and others

DETAILS OF AMOUNT IN THE

RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU

Interest from 04.06.2019 Rs. 6,68,844.17/-to 27.03.2023 @ 10% p.a.

vered Rs. 0.00/-

Recovery Officer-II Debt Recovery Tribunal, Jair

Rs. 17,52,534.97

Rs. 24.42.846.14/

Rs. 21,367/-

Recovery Certificate

Cost of Suit

Less Amount re after RC issued

. TOTAL DUES

(Seal)

ocesses that may be taken for reco

ade as per rules. 2. You are, hereb

emant Singh Bhati, R/o 573, Pragati Nagar

Date: 29.04.2024

... Certificate Hol

03.07.202

1" Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopp Centre, Tonk Road, Jaipur-302015

R.C. No.: 245/2022

State Bank of India

due against you.

Versus

For and on behalf of ELITECON INTERNATIONAL LIMITED Sd/-Vipin Sharma Managing Director DIN: 01739519

EMMSONS

एमसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1993PLC053060

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 301, प्लॉट नंबर 12, जमरूदपुर, सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, दूरभाष: 91-11-29247721-25, फैक्स: 91-11-29247730

वेबसाइटः www.emmsons.com, ई-मेलः corporate@emmsons.com 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का साराश

(राशि लाख रुपये में ईपीएस को छोड़कर

1	क्र.	·	0 0	समाप्त तिमाहा	समाप्त वष		
ł	सं.		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
l			(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
l	1	प्रचालनों से कुल आय	0.26	3.59	1.49	3.84	1.49
l	2	अव्यधि हेतु लाभ/(हानि) अपवादित मदों तथा कर से पूर्व)	(4,768.31)	(4,797.19)	(4,428.66)	(19,112.22)	(17,602.85)
1	3	अवधि हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) (अपवादित मदों के प्रचात)	(4,768.31)	(4,797.19)	(4,428.66)	(19,112.22)	(17,602.85)
1	4	अव्यधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/हानि (अपवादित मदों के पश्चात)	(4,768.31)	(4,797.19)	(4,428.66)	(19,112.22)	(17,602.85)
l	5	कुल व्यापक आय	(4,764.51)	(4,796.67)	(4,431.56)	(19,107.21)	(17,599.15)
ı	6	इक्टिटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60
l		पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर आरक्षितियां	-	-	-	(2,35,225.64)	(2,16,118.43)
	7	आय प्रति शेयर रु. 10/- प्रत्येक के (1) वेसिक (रु.) (2) डाइल्यूटेड (रु.)	(39.75) (39.75)	(39.99) (39.99)	(36.92) (36.92)	(159.32) (159.32)	(146.74) (146.74)

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (राशि लाख रुपये में ईपीएस को छोड़कर

31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 (लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित प्रचालनों से कल आय 0.26 3.59 1.49 3.84 1.49 अवधि हेत् लाभ/(हानि) अपवादित मदौ तथा कर से पूर्व) (4.768.31) (19,112,22 (20.822.59 (4.768.31) (7.648.41)(20.822.59 अवधि हेत् कर पूर्व लाभ/(हानि) (अपवादित मदों के (4.797.19)(19.112.22) अवधि हेत कर पश्चात निवल लाभ/हानि (अपवादित मदो (4.768.31 (4,797.19) (7,648.41) (19.112.22) (20,822.59 5 कुल व्यापक आय (7,651.30) (19,107.21) (4,764.51) (20,818.90) (4,796.67)6 इंक्विटी शेवर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) 1,199.60 1,199.60 1,199.60 1,199.60 1,199.60 पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर आरक्षितियां (2,61,506.87) (2,42,399.66 आय प्रति शेयर रु. 10/- प्रत्येक के (1) बेसिक (रु.) (39.75)(39.99)(63.76)(159.32

. २१ मार्च २०२४ को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और २९ मई, २०२४ । आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट स्टॉक एक्सचें में दाखिल की जा रही है। उपरोक्त 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहर

स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। इन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानसा

(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक)

(159.32

(173.58

(63.76)

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 29 मई, 2024



CHL LIMITED

Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025 Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: chl@chl.co.in CIN No: L55101DL1979PLC009498



EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 202

Sr.		STANDALONE			CONSOLIDATED		
No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,663.85	2,423.59	9,336.16	5,262.65	3,142.74	15,401.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	858.62	655.08	2,841.01	1,844.62	-342.86	1,684.95
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	858.62	654.76	2,841.01	1,844.62	-343.17	1,684.95
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	624.16	456.33	2,107.63	1,610.17	-541.60	951.56
5	Total comprehensive income for the period [comprising Net Profit/ (Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense)]	624.11	432.92	2,107.57	1,556.58	593.40	622.20
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	_	_	-	1	-	_
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	1.14	0.79	3.84	2.84	1.08	1.14

*Reserves for standalone as on 31.03.2024, is Rs. 14,304.33 Lacs and for consolidated is Rs. (12,581.08) Lacs

NOTES:) The above is an extract of the detailed format of quarter & year ended 31.03.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regularements Regulations, 2015. The full format of quarter & year ended 31.03.2024 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website

The results for the quarter & year ended 31.03.2024 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company n the web site of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com)

Place: New Delhi Date: 29th May, 2024 By Order of the Board **CHL LIMITED** (Luv Malhotra) Managing Director DIN 00030477

Phone Number: 88600-83730 Email Id:- accounts@investorsclinic.in

to the company. Name: -Mr. Puneet Agarwal. Add: -Hanuman Industries, Rudrapur Road, Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-263148 Phone No .: - 98973-33332, Email Id:puneet.agarwal@akanshaautomobiles.com

PUBLIC NOTICE

I, M/s Investors Clinic Infratech Pvt. Ltd. having its office at Tapasya Corporate Heights, Sector-126, Noida Uttar Pradesh 201301 have lost Original Agreement and Receipts pertaining to Unit no VA-412 admeasuring 515 Sq. ft. on 4th floor of Tower no VA, in the group housing project namely Ajnara Panorama situated at GH-04, Sector-22A, Yamuna Expressway, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. If anyone finds these documents please inform to